



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ 1947 (श10)
(सं0 पटना 976) पटना, शुक्रवार, 23 मई 2025

सं० अ०सं०क०-08-ग-आ०वि०स्था०-45/2023-1994
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

22 मई 2025

विषय:- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जाने की स्वीकृति।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/ इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोजमर्रा की सामग्री आदि भी मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय योजना के लिये वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु वर्ग-09 से वर्ग-12 तक के लिए प्रधानाध्यापक/प्राचार्य, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के 416 पदों का सृजन किया गया है।

3. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के स्थान पर शिक्षा विभाग में नियुक्त शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवश्यकतानुसार लिया जाना समीचीन है। प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय - समय पर संशोधित वेतन-भत्ते एवं सेवा शर्तों के अधीन अन्य स्वीकृत लाभ का भुगतान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अध्याचना के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की सेवा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी।

4. शिक्षा विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी गयी शिक्षकों की सेवा, शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या- 11/नियमावली, 01-02/2023-743, दिनांक-10.04.2023 (समय समय पर संशोधित) से आच्छादित होगी।

5. शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति शिक्षकों को वेतन-भत्ते आदि देय लाभों का भुगतान व्यय मांग संख्या- 30 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष -2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूर्णित परिव्यय उपमुख्य शीर्ष- 04-अल्पसंख्यकों के कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा-समूह शीर्ष-स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत उपशीर्ष-0001- आवासीय विद्यालय (विपत्र कोड सं०- 30-2225-04-277-0001) से विकलनीय होगा।

6. उक्त राशि की निकासी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार के जिला में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

8. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.05.2025 में मद संख्या-38 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 976-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>